

## मनावर और धरमपुरी विधानसभा का तुलनात्मक विश्लेषण

शोभाराम सोलंकी (शोधार्थी)

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय

इंदौर, मध्यप्रदेश, भारत

### शोध संक्षेप

निर्वाचन में जनता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। जनता निर्वाचन के माध्यम से ही अपने योग्य प्रतिनिधि का चयन करती है। जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरने वाले जनप्रतिनिधि को वोट के माध्यम से बेदखल भी कर दिया जाता है। जनता की सहभागिता के फलस्वरूप ही वैधानिक सरकार का गठन होता है। राज्य के लिए विधानसभा चुनाव का प्रावधान है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदाता के व्यवहार में अंतर को अनेक बार रेखांकित किया गया है। इसी प्रकार दो विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं के व्यवहार में भी अंतर पाया जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में मनावर विधानसभा और धरमपुरी विधानसभा के मतदाताओं के व्यवहार का विश्लेषण किया गया है।

### भूमिका

लोकतंत्र की सफलता और उसका भविष्य निर्वाचन व्यवस्था की कुशलता और निष्पक्षता पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में निर्वाचन तंत्र का विशेष महत्व है। भारतीय संविधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पंडित हृदय नाथ कुंजरू ने कहा था, “अगर निर्वाचन दोषपूर्ण है या कुशल नहीं है या गैर ईमानदार लोगों द्वारा संचालित होता है तो प्रजातंत्र उत्पत्ति के स्रोत पर ही विषमय हो जाएगा। जनता निर्वाचनों से यह सीखने के बदले कि अपने मत का प्रयोग किस प्रकार करे और उसका न्यायपूर्ण मतदान किस प्रकार संविधान में परिवर्तन और प्रशासन में सुधार ला सकता है, वह केवल यह जानने लगती है कि किस प्रकार षड्यंत्रों पर आधारित दलों का निर्माण किया जा सकता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किन गलत तरीकों को अपनाया जा सकता है।”<sup>1</sup>

मनावर विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल है। बावजूद इसके वहां का मतदाता काफी जागरूक है। आसपास के विधानसभा क्षेत्रों से मनावर विधानसभा के मतदान का प्रतिशत अधिक रहा है। निम्नलिखित तालिका से मनावर विधानसभा की स्थिति की जानकारी मिलती है :

क्र.	दल का नाम	मनावर विधानसभा क्षेत्र कुल मतदाता 200732		धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र कुल मतदाता 183624	
		प्राप्त मत	प्राप्त मतों का %	प्राप्त मत	प्राप्त मतों का %
1	भाजपा	55293	27.54	65069	35.43
2	कांग्रेस	53654	26.72	57496	31.32
3	अन्य दल	37618	18.74	5454	2.97
4	नोटा	2497	1.24	3964	2.15
5	प्रतिक्षेपित मत	216	0.10	152	0.08
	कुल योग	149278	74.36	132135	71.95



स्रोत : निर्वाचन कार्यालय धार से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2013 का मनावर विधानसभा क्षेत्र का धरमपुरी विधानसभा से तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि मनावर विधानसभा में भाजपा को 27.54 प्रतिशत मत मिले, वहीं धरमपुरी में 35.43 प्रतिशत, जो मनावर विधानसभा क्षेत्र से 7.89 प्रतिशत अधिक है। कांग्रेस को मनावर विधानसभा क्षेत्र से 26.72 प्रतिशत मत मिले, वहीं धरमपुरी से 31.31 प्रतिशत, जो मनावर से 4.59 प्रतिशत अधिक है। मनावर विधानसभा क्षेत्र से अन्य दल को 18.74 प्रतिशत मत मिले, वहीं धरमपुरी से 2.97 प्रतिशत, जो धरमपुरी से 15.77 प्रतिशत अधिक है। नोटा को मनावर से 1.24 प्रतिशत मत मिले, वहीं धरमपुरी क्षेत्र से 2.15 प्रतिशत, जो मनावर विधानसभा क्षेत्र से 0.91 प्रतिशत अधिक है । मनावर में प्रतिकेपित मत 0.10 है, वहीं धरमपुरी में 0.08 प्रतिशत है। उपर्युक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मनावर विधानसभा क्षेत्र में अन्य दल की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी, जबकि नोटा के लिए वहां के मतदाताओं ने कम रुचि प्रदर्शित की।

## निष्कर्ष

किसी भी प्रदेश के मतदाताओं का मतदान व्यवहार वहां होने वाले निर्वाचन की स्थिति एवं परिणामों से स्पष्ट होता है। मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में मतदान व्यवहार का अध्ययन करें तो यहाँ होने वाले निर्वाचन को समझना होगा। मध्यप्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा निर्वाचन 2013 के चुनाव परिणाम के आकलन से स्पष्ट होता है कि मनावर विधानसभा धार जिले की अन्य विधानसभा क्षेत्रों से भिन्न है। अन्य क्षेत्रों में जहां राजनैतिक जागरूकता का अभाव है । साथ ही

राजनैतिक महत्वाकांक्षा में कमी दीखती है । मतदाताओं का जैसा रुख हुआ, मन हुआ वैसा निर्णय लिया गया । मनावर विधानसभा सीट के मतदाता जागरूक हैं । वे प्रांतीय राजनीति में अहम् भूमिका निभाने वाले तथा विकाशील कार्यों में रुचि रखने वाले प्रत्याशी को ही अपना समर्थन देते हैं।

## सन्दर्भ ग्रन्थ

1 भारतीय शासन एवं राजनीति, पुखराज जैन एवं डॉ.राजेश जैन, एसबीपीडी पब्लिशिंग हॉउस, आगरा, पृष्ठ 202